

तुरंत रिलीज के लिए

डाउनटाउन ब्रैम्पटन में आर.आई.सी. सेंटर का स्थानांतरण सिटी के विकासशील इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में वृद्धि करता है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (28 फरवरी, 2020) – 5 फरवरी को, ब्रैम्पटन काउंसिल ने ब्रैम्पटन के इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट (Innovation District) में रिसर्च इनोवेशन कमर्शिलाइजेशन (आर.आई.सी.) (Research Innovation Commercialization) (RIC) के स्थानांतरण के लिए फंडिंग की मंजूरी दी। सिटी ने आर.आई.सी. सेंटर (RIC Centre) के साथ, डाउनटाउन ब्रैम्पटन में इसके स्थानांतरण का समर्थन करने के लिए तीन वर्षों तक हर साल \$100,000 तक के ग्रांट समझौते पर हस्ताक्षर किए। आर.आई.सी. सेंटर, इस वर्ष अप्रैल में 6 जॉर्ज स्ट्रीट (6 George St.) पर अपने नए डाउनटाउन स्थान में शुरू होगा।

ब्रैम्पटन इनोवेशन कोरिडोर (Innovation Corridor) का मुकाबला करने के लिए, ब्रैम्पटन एंटरप्रीनियर्स को उनके सफर के प्रत्येक पड़ाव पर सहयोग देने के लिए उपलब्ध संसाधनों के साथ, एक ठोस इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के समर्थन में जरूरी सहयोग दे रहा है।

आर.आई.सी. सेंटर एक ऐसा संगठन है, जो एंटरप्रीनियर्स को अपने कारोबार को अगले स्तर पर ले जाने में मदद करता है। यह ब्रैम्पटन के इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, जिसमें शामिल हैं:

- रोजर्स साइबरसिक्योर कैटालिस्ट (Rogers Cybersecure Catalyst)
- ब्रैम्पटन एंटरप्रीनियर सेंटर (Brampton Entrepreneur Centre) (विचार करने और मिलकर काम करने के लिए स्थान)
- रायरसन-ब्रैम्पटन इनोवेशन ज़ोन (Ryerson-Brampton Innovation Zone) (स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर)
- सेंटर फॉर इनोवेशन (Centre for Innovation)
- आर.आई.सी. सेंटर (स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर)

आर.आई.सी. सेंटर, क्लीनटेक (Cleantech), एडवांस्ड मेन्युफेक्चरिंग (Advanced Manufacturing), हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की छोटी और नई कंपनियों पर केंद्रित तकनीकी इनक्यूबेटर है। यह बिजनेस स्टार्टअप सेवाओं और एंटरप्रीनियर्स, स्टार्टअप्स और ऐसी विकसित तकनीकी कंपनियों को इनक्यूबेटर स्थान तक पहुंच प्रदान करता है, जो अपनी वृद्धि में तेज़ी लाना और अपने कारोबार को तेज़ी से मार्केट में ले जाना चाहते हैं। ब्रैम्पटन की आर्थिक विकास (Economic Development) टीम ने कई वर्षों तक आर.आई.सी. सेंटर के साथ मिलकर काम किया है। उन्होंने ऐसी पहलकदमियों में सहयोग किया है, जो ब्रैम्पटन में इनोवेशन और एंटरप्रीनियर संबंधी नेटवर्कों को सहयोग करती हैं। पिछले चार वर्षों में, आर.आई.सी. सेंटर ने 600 से अधिक सक्रिय क्लाइंट्स की \$110M फंड एकत्र करने और \$97M का राजस्व उत्पन्न करने तथा 1,642 नौकरियां पैदा करने में मदद की है।

ब्रैम्पटन के इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में आर.आई.सी. सेंटर की वृद्धि [रायरसन के इनोवेशन ज़ोन \(Ryerson's Innovation Zone\)](#) और डाउनटाउन ब्रैम्पटन के इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में स्थित कैनेडा के पहले [साइबरसिक्योरिटी एक्सलेरेटर \(Cybersecurity Accelerator\)](#) की घोषणाओं के तुरंत बाद हुई है।

इस बसंत में खुलने वाला ब्रैम्पटन का कैटालिस्ट साइबर एक्सलेरेटर (Catalyst Cyber Accelerator), कैनेडा के साइबरसिक्योरिटी ईकोसिस्टम को सहयोग देगा। यह कैनेडा की विकासशील कंपनियों को साइबरसिक्योरिटी और संबंधित क्षेत्रों के टूल्स प्रदान करेगा, जिनकी उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विकसित और सफल होने के लिए जरूरत है।

रायरसन द्वारा संचालित ब्रैम्पटन इनोवेशन ज़ोन (Brampton Innovation Zone) का मॉडल, रायरसन यूनिवर्सिटी के दुनियाभर में प्रसिद्ध [ज़ोन नेटवर्क \(Zone network\)](#) पर आधारित है और इससे जुड़ा हुआ है। यह लोगों को विचार करने, प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए साथ लाने और स्टार्टअप्स को शुरूआती-पड़ाव वाली इनक्यूबेटेड कंपनियों से विकसित कारोबारों तक ले जाने में मदद के लिए तैयार किया गया है। यह डाउनटाउन ब्रैम्पटन में 2020 में खुलेगा।

हवाले

“सिटी ने पहले आर.आई.सी. सेंटर के साथ तीव्रता से काम किया है। सिटी का उनके साथ लंबा सकारात्मक संबंधी है। हम उनके साथ साझेदारी करके बेहद खुश हैं क्योंकि हम अपना इनोवेशन ईकोसिस्टम विकसित कर रहे हैं। उनके साथ और हमारे अन्य साझेदारों के साथ मिलकर, हम ठोस इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट का निर्माण कर रहे हैं, जिससे हम अपने एंटरप्रीनियर्स और कारोबारियों के सफर के प्रत्येक पड़ाव में उनकी मदद कर पाएंगे। यह साझेदारी, इसमें शामिल सभी लोगों के लिए लाभदायक है – विशेषकर हमारे एंटरप्रीनियर्स और कारोबार के मालिकों के लिए। आर.आई.सी. सेंटर में सबका स्वागत है!”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“आर.आई.सी. सेंटर में हमारा निवेश महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अवसरों के शहर का निर्माण करने, कारोबारियों, एंटरप्रीनियर्स को आकर्षित करने और ब्रैम्पटन में नौकरियां पैदा करने के लिए हमारी टर्म ऑफ काउंसिल प्रायरीटी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; वाइस-चेयर, इकोनॉमिक डेवलेपमेंट एंड कल्चर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“इनोवेशन कोरिडोर के मध्यम भाग में हमारे मुख्य स्थान के साथ, ब्रैम्पटन इनोवेशन में वैश्विक लीडर बनने के हमारे लक्ष्य के साथ अपना इनोवेशन ईकोसिस्टम विकसित कर रहा है। हमारा स्टाफ साझेदारियां बनाने और ब्रैम्पटन को एंटरप्रीनियर्स और कारोबारियों के लिए श्रेष्ठ स्थान बनाने के लिए हर जरूरी शर्तें लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हम ब्रैम्पटन में जाने पर बेहद खुश हैं। हमने पिछले कुछ वर्षों में उनके साथ काम करके ब्रैम्पटन के साथ शानदार संबंध कायम किया है। हम अपने कई नए अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। हम अपने नए स्थान पर स्थापित हो गए हैं। डाउनटाउन ब्रैम्पटन में बहुत ऊर्जा है – जुनून है – और हम यहां विकसित हो रहे इनोवेशन ईकोसिस्टम का हिस्सा बनने को लेकर बहुत उत्साहित हैं।”

- पैम बैंक्स (Pam Banks), एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आर.आई.सी. सेंटर

“आर.आई.सी. सेंटर का इनक्यूबेटर प्रोग्राम, B2B कारोबारियों के साथ-साथ उन कारोबारियों के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया है, जो केवल सॉफ्टवेयर के लिए नहीं हैं, जिनके पास अधिक जटिल उत्पाद हैं, जिनके लिए अधिक ठोस बिजनेस मॉडल और विकास कार्यनीति की जरूरत है।”

- हामिद अली मुहम्मद (Hamid Alemohammad), ए.ओ.एम.एस. को-फाउंडर, पूर्व आर.आई.सी. इनक्यूबेटर क्लाइंट, जिन्होंने 2 वर्षों में 300% तक की राजस्व वृद्धि देखी।

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

मीडिया संपर्क